

प्रेस विज्ञप्ति

सांची विश्वविद्यालय में वार्षिक खेल उत्सव

- 07-08 फरवरी, 2018 को होंगे विभिन्न इवेंट
- इस वर्ष क्रिकेट को किया गया वार्षिक खेलों में शामिल
- टीटी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स के इवेंट
- रस्साकशी का भी रोचक मुक़ाबले होंगे

सांची बौद्ध-भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय में दो दिवसीय वार्षिक खेलोत्सव आज से प्रारंभ हो रहे हैं। आज प्रातः 11 बजे संस्कृति विभाग की सचिव एवं विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेनू तिवारी बारला, रायसेन स्थित विश्वविद्यालय खेल मैदान में इस खेलोत्सव का शुभारंभ करेंगी। वार्षिक खेलों के अंतर्गत इंडोर और आउटडोर खेलों के 8 विभिन्न इवेंट आयोजित किए जा रहे हैं। क्रिकेट को पहली बार विश्वविद्यालय के खेलोत्सव में सम्मिलित किया गया है।

यह लगातार तीसरा वर्ष है जब विश्वविद्यालय में सालाना खेलों का आयोजन किया जा रहा है। दो दिनों तक लगातार टेबल टेनिस, कैरम, शतरंज, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, एथलेटिक्स, क्रिकेट और रस्साकशी के खेल आयोजित किए जाएंगे। एम.ए, एम.फिल, पी.एच.डी एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के छात्र इस खेल उत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं।

क्रिकेट में विश्वविद्यालय के सभी विभागों की टीमों हिस्सा ले रही हैं। योग और चीनी विभाग की एक-एक टीम। भारतीय दर्शन, हिंदी और अंग्रेज़ी विभागों को मिलाकर तीसरी टीम...जबकि संस्कृत, वैदिक अध्ययन, बौद्ध अध्ययन तथा इंडियन पेंटिंग विभागों को मिलकर चौथी टीम का गठन किया गया है। क्रिकेट के मुक़ाबले लगातार 2 दिनों तक विश्वविद्यालय परिसर के क्रिकेट मैदान पर चलेंगे। हर बार की तरह ही सबसे रोचक मुक़ाबले रस्साकशी के होते हैं जिसमें छात्रों के अलावा शिक्षक और कर्मचारी भी हिस्सा लेते हैं।

विश्वविद्यालय की कुलपति श्रीमती रेनू तिवारी शुभारंभ अवसर पर सभी छात्र-छात्राओं को खेलों के प्रारंभ होने से पहले शपथ भी दिलाएंगी। पिछले वर्षों की ही तरह इस वर्ष भी विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं को आपसी समन्वय स्थापित कर टीम वर्क तथा स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए वार्षिक खेल आयोजित किए गए हैं।

वार्षिक खेलों के समन्वयक और विश्वविद्यालय के सहायक निदेशक(खेल) श्री विवेक पांडे ने बताया कि प्रत्येक वर्ष विश्वविद्यालय में एक-एक खेल बढ़ाया जा रहा है और आगामी वर्षों में लॉन टेनिस जैसे इवेंट भी जोड़े जा सकते हैं।

खेल इस प्रकार आयोजित किए जाएंगे-

क्र.	खेल	वर्ग	सिंगल/डबल
1.	टेबल टेनिस	छात्र/छात्राएं	सिंगल्स
2.	केरम	छात्र/छात्राएं	सिंगल्स/डबल्स
3.	चैस	छात्र/छात्राएं	सिंगल
4.	बैडमिंटन	छात्र/छात्राएं	सिंगल्स/डबल्स
5.	वॉलीबॉल	टीम इवेंट	टीम इवेंट
6.	एथलेटिक्स 100 मीटर (स्प्रिंट)	छात्र/छात्राएं	एकल इवेंट
7.	क्रिकेट	मिक्स वर्ग	टीम इवेंट
8.	रस्साकशी	मिक्स वर्ग	टीम इवेंट